



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1624]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2017/ज्येष्ठ 18, 1939

No. 1624]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2017/JYAISTHA 18, 1939

I Mē ifjogu vḷḷ jktekxl eky;

vf/kl puk

नई दिल्ली, 8 जून, 2017

dk-vk- 1831½—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 656 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थीं, द्वारा झारखण्ड राज्य के साहिबगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133बी के 0.000 कि.मी. से 8.500 कि.मी. (जिला साहिबगंज सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 12 मार्च, 2017 को "प्रभात खबर" और "टाइम्स ऑफ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

vud ph

>kj [k.M jkT; ds l kfgcxat ftys eajk"Vh; jktekx l l ; k&133ch ds 0-000 fd-eh- l s 8-500 fd-eh- rd % kfgcxat ftyk ds [kM% ds fy, vtU dh tkus okyh l jpkuk jfgr vFkok l jpkuk l fgr Hkife dk l f{klr foj .kA

Øe l ; k	ftys dk uke	rkyd dk uke	xk dk uke	l o;k.k l ; k	Hkife dh i xkj	Hkife dh i xfr	{k=Qy		Hkife; k@ fgRC+ 0; fDr; k dk uke
							%gDV\$ j e%	%oxZ ehVj e%	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	साहिबगंज	(1) मंडरो	(1) अम्बाडीह	3	निजी	कृषि	0.0230	230.00	गोपाल मडैया वलद जोलाह मडैया व छोटा गोपाल मडैया व कालू मडैया पे. फुचु मडैया वगैरह
				4	निजी	कृषि	0.3055	3055.00	गोपाल मडैया वलद जोलाह मडैया व छोटा गोपाल मडैया व कालू मडैया पे. फुचु मडैया वगैरह
				6	निजी	कृषि	0.0263	263.00	आलम बेसरा वलद बांका बेसरा
				30	निजी	कृषि	0.0254	254.00	चेतन टुडू राम टुडू पे. रसिका टुडू
				32	निजी	कृषि	0.2873	2873.00	झुमक हेम्ब्रम वलद मोहन हेम्ब्रम
					dy		0.6675	6675.00	
		(2) साहिबगंज	(2) किशन प्रसाद वगैरह	2362	निजी	कृषि	0.1416	1416.00	रामेश्वर नाथ यादव इत्यादि
					dy		0.1416	1416.00	
			(3) रामपुर बलूआटोली	52	निजी	कृषि	0.2590	2590.00	कारु पासवान इत्यादि, पिता गोपी पासवान
					dy		0.2590	2590.00	
					dy ; kx		1.0681	10681.00	

[फा. सं. भाराराप्रा/पकाई/पीडी/एसबीजी/भू-अर्जन]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2017

S.O. 1831(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 656(E) dated : 28th February 2017, published in Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section(I) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for building (widening/four –laning, etc.) maintenance , management and operation of National Highway No 133B on the stretch of land from km. 0.000 to km. 8.500 (District Sahibganj section) in the district of Sahibganj in the State of Jharkhand.

And whereas the substance of the said notification has been published in Prabhat Khabar and Times of India both dated – 12/03/2017, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 0.000 to Km 8.500 of National Highway No 133B in the State of Jharkhand

S.No.	Name of the District	Name of the Taluka/ Anchal	Name of the Village	Survey/ Plot No.	Type of land	Nature of land	Area in		Name of the land owner/Interested Persons
							(Hactare)	Square meters	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Sahibganj	(1) Mandro	(1) Amba-diha	3	Private	Agriculture	0.0230	230.00	Gopal Maraiya S/o Jolah Maraiya, Chota Gopal Maraiya and Kalu Maraiya S/o Phuchu Maraiya etc.
				4	Private	Agriculture	0.3055	3055.00	Gopal Maraiya S/o Jolah Maraiya, Chota Gopal Maraiya and Kalu Maraiya S/o Phuchu Maraiya etc.
				6	Private	Agriculture	0.0263	263.00	Alama Besra S/o Banka Besra
				30	Private	Agriculture	0.0254	254.00	Chetan Tudu, Ram Tudu S/o Rasika Tudu
				32	Private	Agriculture	0.2873	2873.00	Jhumak Hembrom S/o Mohan Hembrom.
				Total -			0.6675	6675.00	

		(2) Sahib- ganj	(2) Kishan Prasad Wag- airah	2362	Private	Agriculture	0.1416	1416.00	Rameshwar Nath Yadav etc.
				Total -			0.1416	1416.00	
			(3) Rampur Balua Toli	52	Private	Agriculture	0.2590	2590.00	Karu Paswan etc. S/o Gopi Paswan
				Total -			0.2590	2590.00	
	Grand Total						1.0681	10681.00	

[F. No. NHAI/PIU/PD/SBG/LA]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.